



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

10 वैशाख 1936 (श0)  
(सं0 पटना 394) पटना, बुधवार, 30 अप्रील 2014

---

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना  
30 अप्रील 2014

सं0 बिक्रीकर/विविध-43/2013-2128—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-24 की उप-धारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त द्वारा लोक सभा आम चुनाव 2014 के कारण वित्तीय वर्ष 2013-14 के चतुर्थ त्रैमास के लिए विवरणी दाखिल करने हेतु निर्गत अधिसूचना सं0 6083, दिनांक 29.08.2012 के साथ उपाबद्ध तालिका के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट तिथि दिनांक 15 मई 2014 निर्धारित की जाती है।

आगे की अवधि हेतु पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-6083 दिनांक 29.08.2012 यथावत् प्रभावी रहेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
नरेन्द्र कुमार सिन्हा,  
आयुक्त, वाणिज्य-कर।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 394-571+500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>